

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 09.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

### **300 अदद अवैध नशीली गोली के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 300 अदद अवैध नशीली गोली (नीबिया) के साथ एक अभियुक्त नाम पता मनीष यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ट्यूबेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 309 / 19 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### **वारण्टी**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1 – कृपाल केवट पुत्र पारस केवट निवासी पड़ोखर 2 – मुसम्मी राजू पुत्र मुखलाल निवासी झिगिना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

### **पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 2548 ने दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुचाया अस्पताल** – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1787 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट मे घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को पीआरवी से इलाज हेतु अस्पताल मे भर्ती करवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की जान की जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

**पीआरवी स्टाफ** – मुख्य आरक्षी फूल सिंह, आरक्षी इन्द्रकमल यादव, हो0चा0 सुनील पाण्डेय ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन सीज व 26 वाहनो से 6600 रु0 सम्मन**

### **शुल्क वसूल**

आज दिनांक 09-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन सीज व 26 वाहनो से 6600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

## शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 10 अभियुक्त गिरफ्तार –

- 1 – दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 2 – महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



- 3 - मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 4 - धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

